

परिशिष्ट सारणी III.4: सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम
(सूचना प्रस्तुत करने के नियत अंतिम शुक्रवार को)

क्षेत्र	खातों की संख्या (लाख में)				बकाया राशि (करोड़ रुपए)					
	जून 1969	मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007	मार्च 2008@	जून 1969	मार्च 2005	मार्च 2006	मार्च 2007	मार्च 2008@
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. कृषि	1.7	202	238	251	283	162 (5.4)	1,09,917 (15.3)	1,55,220 (15.3)	2,02,614 (15.4)	2,48,685 (17.4)
i) प्रत्यक्ष	1.6	195	221	237	279	40	83,038 (11.6)	1,12,126 (11.0)	1,44,372 (11.0)	1,76,135 (12.9)
ii) अप्रत्यक्ष	0.1	7	17	14	4	122 (4.0)	26,879 (3.7)	43,093 (4.2)	58,242 (4.4)	72,550 (5.3)
II. लघु उद्योग	0.5	14	17	17	-	257 (8.5)	68,000 (9.5)	82,434 (8.1)	1,02,550 (7.8)	-
II (अ) छोटे उद्यमी#	-	-	-	-	39	-	-	-	-	1,48,651
III. अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	0.4	89	92	111	-	22 (0.7)	1,25,114 (17.4)	1,63,756 (16.1)	2,06,661 (15.7)	-
IV. खुदरा व्यापार*	-	-	-	-	35	-	-	-	-	40,740
V. व्यक्ति ऋण*	-	-	-	-	8	-	-	-	-	3,136
VI. शिक्षा*	-	-	-	-	13	-	-	-	-	19,844
VII. आवास*	-	-	-	-	34	-	-	-	-	1,47,626
VIII. कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम *	2.6	314	358	389	412	441 (14.6)	3,07,046 (42.8)	4,09,748 (40.3)	5,21,376 (39.7)	6,08,963 (44.6)
IX. निवल बैंक ऋण	-	-	-	-	-	3,016	7,17,419	10,17,656	13,13,840	-
IX (अ) समायोजित निवल बैंक ऋण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,64,268

@ : अर्नतिम

: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम के नए दिशा-निर्देशों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमी विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार छोटे और सूक्ष्म उद्यमों की स्थापित परिभाषा ध्यान में ली है।

* : प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को दिए जाने वाले ऋण के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अग्रिम देने के विस्तृत वर्गीकरण में कृषि, छोटे उद्योग क्षेत्र, खुदरा व्यापार व्यक्ति ऋण, शिक्षा और आवास शामिल हैं।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े निवल बैंक ऋण का प्रतिशत दर्शाते हैं। 2007 - 08 से ये आंकड़े समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) या तुलन-पत्र बाह्य ऋण एक्सचेंज के समतुल्य ऋण, जो भी अधिक हो, का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए आंकड़े।